

तटरक्षक क्लोक समय-त्रकीण

New-Age time-management



1 भगवान उपाय के शुरुआत और अंत करने के लिए बनाया समय!

अभिरक्षक गार्जियन क्लोक (तटरक्षक क्लोक) अल्पावधिके लिए (घंटे) समय-प्रबंधन, अन्य सभी घड़ियों को बदल देता है (तुलना 24 घंटों वी 21h) :

एक दनि 21 घंटे है> 1 घंटा 21 मनिट है> 1 मनिट 21 सेकंड है
> 1 सेकंड 21 ब्लकि करता है> 1 झपकी 21 चमक है> 1 फ्लैश 21 क्लक्स है

C-G Klock	D	h	m	s	b	f	c
1 D Day	1						
21 h hour	1	21					
21 m minute	1	21	441				
21 s second	1	21	441	9,261			
21 b blink	1	21	441	9,261	194,481		
21 f flash	1	21	441	9,261	194,481	4,084,101	
21 c click	1	21	441	9,261	194,481	4,084,101	85,766,121

घड़ी और घड़ी एक 3 पंक्तिप्रदर्शन का उपयोग करें:

14h-12M -16

207 डीवाई -4 DW

Y1 - M8 - डब्ल्यू 2 - D4

पंक्ति 1: 14 घंटा, 12 मनिट, 16 सेकंड।

लाइन 2: 207 साल के दनि, 4 सप्ताह के दनि

पंक्ति 3: वर्ष 1 - माह 8 -Week 2 - 4 दनि

या: वर्ष 1 के मध्य सप्ताह में 2 सप्ताह के बृहस्पतिमिहीने

नामकरण, सप्ताह: दविस दविस 1

दनि 2 दनि 3 मध्य सप्ताह दनि 5 सप्ताह

समाप्त मौजमस्ती का दनि

1 सेट दूसरा दनि तीसरा दनि चतुर्थ 4 दनि 5 दनि 6 दनि 7 दनि

रविवार * सोमवार * मंगलवार * Wednes-

दनि * गुरुवार * शुक्रवार * शनिवार *

रोकने घड़ी भी झपकी, फ्लैश प्रदर्शति करने और समय पर क्लकि करें ... The


तटरक्षक क्लोक घड़ी, घड़ी और रोकने के घड़ी द्वारा प्रदर्शति कया जाता है। अपने घड़ीसाज से पूछें कआप प्राप्त करने के लिए 1 (21h घड़ी, घड़ी, स्टॉपवॉच, ..) ।

हे घंटे सूर्योदय पर कम से कम रात के बाद हर साल निर्धारति है। हर 73

दनि (एक वर्ष 5 गुना से) 0 घंटे रीसेट कया जाता है (दनि के उजाले की बचत)। Daylight- बचत संभव के रूप में सूर्योदय के करीब के रूप में प्राप्त करने के लिए की जरूरत है। सूर्योदय के समय हो रही है प्राकृतिक और स्वस्थ है।



समय-त्रिकोण



दनि की शुरुआत : हे घंटे सूर्योदय

शुरुआती दनि 7 घंटे 7 घंटे है - 0 से है मडि-डे

देर दविस 14 घंटे 14 घंटे है - 7 से है सूर्य का अस्त होना

रात 14 से है - 21 घंटे

तुलना 21h तटरक्षक क्लोक / 24 घंटों बुतपरस्त घड़ी

समय-त्रिभुज

* 24 घंटे बुतपरस्त घड़ी

दविस पर शुरु होता है 0 घंटे सूर्योदय >

6 घंटे

शुरुआती दनि है 0 से - 7 घंटे >

6 - 12 सुबह

7 घंटे है मडि-डे >

12 दोपहर

देर दविस है 7 से - 14 घंटे >

12 - 18 दोपहर

14 घंटे है सूर्य का अस्त होना >

18 - 22 शाम

रात 21 घंटे - 14 से है।

22 - 24 + 1 - 6 रात

रात नषिधाजूजा 21 घंटे - 14 से।

रात नषिधाजूजा 22 - 6

रात कर्फ्यू



मानव शरीर रात होने के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य एक रात में जीवन शैली बनाने के लिए अपने brain- शक्तिका दुरुपयोग कया। इस जीवन शैली को अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है।

रात कर्फ्यू अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

14-21 घंटे से एक 7 घंटे रात कर्फ्यू (22 6 घंटे, 24 घंटे Pagan- घड़ी) अनविर्य है। अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जा खपत tion में कमी, प्रदूषण में कमी और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अपराध में कमी, सरकार को लागत को कम करने, गुणन को प्रोत्साहति।